



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 788 राँची, शुक्रवार,

11 अक्टूबर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2019 ई०।

संख्या: 12/प्रो0-09-04/2015का0 7853-- विभागीय अधिसूचना संख्या-6438 दिनांक-09.08.2019 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री दयानन्द पासवान, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के फ्लोटिंग पद को उनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो0-09-04/2015का0 7854-- विभागीय अधिसूचना संख्या-6439 दिनांक-09.08.2019 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री शशि कुजूर, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में उनके द्वारा धारित प्रधान आप्त सचिव के पद को

उनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. सभी नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिवों को पदभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय त्रिवेदी,
सरकार के अवर सचिव।
